


Greetings Users,

A warm welcome from FinvestCraft!

Understanding the importance of insurance policies is crucial in safeguarding your financial well-being. Policies, such as those offered by LIC, serve as a protective shield against unforeseen circumstances. They provide financial security to your loved ones in case of an unfortunate event, ensuring that they are not burdened with financial liabilities.


Insurance policies act as a strategic tool for long-term financial planning, offering peace of mind and a sense of stability. Exploring the various options available allows you to make informed decisions tailored to your unique needs.

Take a moment to consider the significance of these policies before making a choice that aligns with your financial goals and provides a safety net for the future.



- सिर्फ एक बार प्रीमियम भुगतान
- आप विलम्बित अवधि के अनुसार अपनी पेन्शन का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं।
- आजीवन गारंटीड पेन्शन भुगतान
- संयुक्त जीवन (पति एवं पत्नी) पेन्शन उपलब्ध, पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी उसी दर पर आजीवन गारंटीड पेन्शन की सुविधा
- पेन्शन पर व्याज दरों के उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं
- 31 वर्ष की आयु से पेन्शन प्रारम्भ
- विलम्बित अवधि के दौरान जीवन सुरक्षा (गारंटीड एडिशन)
- मृत्यु पश्चात न्यूनतम एकल प्रीमियम का 105% (गारंटीड) का नॉमिनी को भुगतान
- नामांकन एवं समनुदेशन की सुविधा
- MWP Act एवं HUF में भी पॉलिरी ली जा सकती है।
- NRI हेतु GST Exemption

रु. 11 लाख पर वार्षिक पेंशन					रु. 25 लाख पर वार्षिक पेंशन				
आयु वर्षों में	विलम्बित अवधि				आयु वर्षों में	विलम्बित अवधि			
	1 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष	12 वर्ष		1 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष	12 वर्ष
35	75350	94820	130130	146740	35	171875	216125	296375	334125
50	76670	99550	139920	157520	50	174875	226875	318625	358625
55	77220	101860	143770	160490	55	176125	232125	327375	365375
60	77880	104830	147180	160820	60	177625	238875	335125	366125
70	79200	112310	141350	---	70	180675	255875	321875	---



**LIC : your trusted partner for life: Why go anywhere else?**




## 2. Nivesh Plus

एक बार बचाएं... और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें

एकल प्रीमियम

सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस



**निवेश प्लस**

योजना सं: 849 UIN:512L317V01

यूनिट लिंकड, असहभागी, एकल प्रीमियम, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना

**परिपक्वता हितलाभ** - परिपक्वता पर फण्ड वैल्यू का भुगतान

**जोखिम हितलाभ** - जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व मृत्यु होने पर : फण्ड वैल्यू की वापसी

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात मृत्यु होने पर : (1) मृत्यु की तिथि पर मूल बीमाधन अथवा (2) यूनिट फण्ड वैल्यू (विकल्प 1/2 के अनुसार मूल बीमाधन अर्थात 1.25 / 10 गुणा) (जो भी अधिक हो)

**मुख्य आकर्षण**

- कवर का स्तर विधि/प्रीमियम राशि पर निर्भर करेगा।
- विधि : एकल प्रीमियम
- मृत्यु दर जोखिम के लिए केवल (SA Minus Fund Value) यदि वैल्यू मूल बीमाधन से अधिक है, तो मृत्यु दर शुल्क नहीं काटा जायेगा।
- AB राइडर उपलब्ध
- Settlement Option उपलब्ध
- समनुदेशन (Assignment) / नामांकन (Nomination) सुविधायें उपलब्ध
- 5 वर्ष पश्चात आंशिक निकासी / Surrender उपलब्ध
- कोई टॉप-अप प्रीमियम की अनुमति नहीं है।
- एक पॉलिसी वर्ष में 4 बार रिवच मुफ्त, उसके बाद रु. 100 प्रति रिवच
- लॉक-इन अवधि : 5 वर्ष

**पात्रता की शर्तें**

	विकल्प 1	विकल्प 2
न्यूनतम एकल प्रीमियम 1 लाख, अधिकतम कोई सीमा नहीं		
प्रवेश पर आयु : न्यूनतम	90 दिन	90 दिन
: अधिकतम	70 वर्ष	35 वर्ष
परिपक्वता पर आयु : न्यूनतम/अधिकतम आयु	18/85 वर्ष	18/50 वर्ष
पॉलिसी अवधि : विकल्प 1 : 10 से 25 वर्ष		
विकल्प 2 - प्रवेश आयु 25 वर्ष तक	26 से 30 वर्ष	31 से 35 वर्ष
10 से 25 वर्ष	10 से 20 वर्ष	10 वर्ष

**शुल्क**

पॉलिसी प्रबन्धन : कोई नहीं

फण्ड प्रबन्धन : यूनिट फंड का 1.35% प्रति वर्ष

बंद किये गये फंड के लिये 0.50% प्रति वर्ष

आंशिक निकासी : रु. 100/-

प्रीमियम आवंटन : 3.30%

मृत्यु दर : जीवन बीमा जोखिम की लागत के अनुसार

दुर्घटना हितलाभ : रु. 0.40 प्रति हजार बीमाधन


**गारण्टीड एडीशन : 6/10/15/20/25 वर्ष के अंत में एकल प्रीमियम का 3/4/5/6/7 प्रतिशत यूनिट फंड में जोड़ा जायेगा।**

Fund Type	Govt. Sec.	Money Mkt. Type	Equity	Risk
Bond Fund	Min. 60%	Max. 40%	Nil	Low Risk
Secure Fund	45% to 85%	Max. 40%	15% to 55%	Lower to Medium
Balanced Fund	30% to 70%	Max. 40%	30% to 70%	Medium
Growth Fund	20% to 60%	Max. 40%	40% to 80%	High Risk


“इस पॉलिसी में निवेश फोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम: पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जायेगा”  
बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।

न्याय (अधिकतम प्रशिक्षण सामग्री, केवल निजी वितरण हेतु)


### 3. SEEP



**योजना सं. 852**  
UIN 512L334V01



सबसे पहले  
लाइफ इंश्योरेंस



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIC INSURANCE CORPORATION OF INDIA  
लखनऊ मण्डल

**एक सीप - दो फायदे  
बचत भी : सुरक्षा भी**

**परिपक्वता हितलाभ** - परिपक्वता पर फण्ड वैल्यू का भुगतान + पॉलिसी अवधि पर काटे गये जोखिम प्रीमियम की वापसी

**जोखिम हितलाभ** - जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व मृत्यु होने पर : फण्ड वैल्यू की वापसी

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात मृत्यु होने पर : (1) मृत्यु की तिथि पर मूल बीमाधन अथवा (2) यूनिट फण्ड वैल्यू अथवा (3) मृत्यु की तिथि पर कुल प्राप्त प्रीमियम का 105% (जो भी अधिक हो)

**मुख्य आकर्षण**

- बीमा कवरेज के साथ-साथ व्यवस्थित निवेश के माध्यम से धन सृजन
- विधि : वार्षिक / अर्द्धवार्षिक / त्रैमासिक और मासिक (NACH)
- मृत्यु दर जोखिम के लिए केवल (SA Minus Fund Value) यदि वैल्यू मूल बीमाधन से से अधिक है, तो मृत्यु दर शुल्क नहीं काटा जायेगा।
- AB राइडर उपलब्ध
- Settlement Option उपलब्ध
- समनुवर्धन (Assignment) / नामांकन (Nomination) सुविधायें उपलब्ध
- पुनर्चलन अवधि : 3 वर्ष
- कोई टॉप-अप प्रीमियम की अनुमति नहीं है।
- एक पॉलिसी वर्ष में 4 बार रिवीज मुफ्त, उसके बाद रु. 100 प्रति रिवीज
- लॉक-इन अवधि : 5 वर्ष

**पात्रता की शर्तें**

प्रवेश पर आयु : 90 दिन से 65 वर्ष NBD  
पॉलिसी अवधि : 10 से 25 वर्ष  
परिपक्वता आयु : न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष  
विधि एवं न्यूनतम प्रीमियम

विधि	वार्षिक	अर्द्धवार्षिक	त्रैमासिक	मासिक (NACH)
न्यूनतम धनराशि	40,000/-	22,000/-	12,000/-	4,000/-

इसके उपरान्त 1000/- के गुणक में (NACH में 250/- के गुणक में) अधिकतम की कोई सीमा नहीं

**शुल्क**

- पॉलिसी प्रबन्धन : कोई नहीं
- फण्ड प्रबन्धन : यूनिट फंड का 1.35% प्रति वर्ष  
बंद किये गये फंड के लिये 0.50% प्रति वर्ष
- मृत्यु दर : जोखिम के योग के आधार पर गणना
- दुर्घटना हितलाभ : रु. 0.40 प्रति हजार बीमाधन
- आंशिक निकासी : रु. 100/-
- प्रीमियम आवंटन : प्रथम वर्ष 2 से 5 वर्ष उसके पश्चात

प्रीमियम आवंटन	प्रथम वर्ष	2 से 5 वर्ष	उसके पश्चात
	8.00%	5.50%	3.00%

**गारण्टीड एंटीशेन : 6/10/15/20/25 वर्ष के अंत में वार्षिक प्रीमियम का 5/10/15/20/25 प्रतिशत यूनिट फंड में जोड़ा जायेगा।**

Fund Type	Govt. Sec.	Money Mkt. Type	Equity	Risk
Bond Fund	Min. 60%	Max. 40%	Nil	Low Risk
Secure Fund	45% to 85%	Max. 40%	15% to 55%	Lower to Medium
Balanced Fund	30% to 70%	Max. 40%	30% to 70%	Medium
Growth Fund	20% to 60%	Max. 40%	40% to 80%	High Risk

"इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जायेगा"  
बीमा आगह की विषय वस्तु है।

(अभिकर्ता प्रशिक्षण सामग्री, केवल निजी वितरण हेतु)



#### 4. New Pension Plus

  
**LIC**  
 भारतीय जीवन बीमा निगम  
 LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA  
 हम पल आपके साथ  
 लखनऊ मण्डल

एलआईसी का

**न्यू पेन्शन प्लस**

यूनिट लिक्विड पेन्शन प्लान

UIN : 512L347V01

  
 योजना सं. 867

**सेवानिवृत्ति की योजना बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाद की तारीख तक टाल सकते हैं। योजना बनाने का समय अभी है।**

**मुख्य आकर्षण**

**यूनिट लिक्विड पेंशन प्लान**

**रेगुलर/सिंगल प्रीमियम सुविधा**

**न्यूनतम आयु 25 वर्ष**

**अधिकतम आयु 75 वर्ष**

**गारन्टीड रिटर्न के साथ पेंशन की सुविधा**

**निहित आयु 35 से 85 वर्ष**

**विलम्बित अवधि 10 से 42 वर्ष**

**प्रीमियम भुगतान—एकल, वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक एवं NACH**

**मूल बीमा राशि लागू नहीं है।**

**न्यूनतम प्रीमियम—एकल 1,00,000 वार्षिक 30,000/-**

**अधिकतम प्रीमियम की कोई सीमा नहीं**

**अर्द्धवार्षिक : रु. 16,000**

**त्रैमासिक : रु. 9,000**

**मासिक (NACH) : रु. 3,000**

**फण्ड के प्रकार**

1 Bond Fund
2 Secure Fund
3 Balance Fund
4 Growth Fund
5 Discontinued Fund

**गारन्टीड एडीशन**

पॉलिसी वर्ष का अंत	प्रति वर्ष गारन्टीड एडीशन (एक वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)	प्रति वर्ष गारन्टीड एडीशन (एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
6 <sup>th</sup>	5.00%	4.00%
10 <sup>th</sup>	10.00%	5.00%
11 <sup>th</sup> to 15 <sup>th</sup>	4.00%	1.25%
16 <sup>th</sup> to 20 <sup>th</sup>	5.50%	1.50%
21 <sup>st</sup> to 25 <sup>th</sup>	7.00%	2.00%
26 <sup>th</sup> to 30 <sup>th</sup>	8.75%	2.50%
31 <sup>st</sup> to 35 <sup>th</sup>	10.75%	3.00%
36 <sup>th</sup> to 40 <sup>th</sup>	13.00%	3.75%
41 <sup>st</sup> to 42 <sup>nd</sup>	15.50%	4.50%

**अन्य लाभ**

वर्ष के आधार पर प्रीमियम आवंटन शुल्क

स्थिति के आधार पर फंड प्रबन्धक शुल्क

आंशिक निकासी शुल्क : फ्लैट रु. 100

वर्ष के आधार पर विच्छेदन प्रसार

विविध शुल्क : फ्लैट रु. 100

कैपिटल गारंटी :

गारन्टीड एडीशन / प्रीमियम का 105%

दुर्घटना हितलाभ राइडर उपलब्ध।

समनुदेशन (Assignment) सुविधा उपलब्ध।

अभ्यर्पण मूल्य : 5 पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के पश्चात।

पॉलिसी नियमानुसार विभिन्न शुल्क लागू

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।  
 बिड्डी के समापन से पूर्व कृपया विस्तृत जानकारी के लिये बिड्डी पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।  
 यूनिट लिक्विड पॉलिसियां पूंजी बाजार के निवेश जोखिम के अधीन होती हैं।  
 पूर्व परिणाम भविष्य की सम्भावनाओं या आमदनी का सूचक नहीं है।

## 5. Dhan Vriddhi



भारतीय जीवन बीमा निगम  
एक नॉन-लिवर, असहभागी,  
व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना

धन वृद्धि

UIN: 512N362V01 | Plan No.: 869

एक नॉन-लिवर, असहभागी,  
व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना




**एक एकल प्रीमियम योजना**  
**गारंटीड वृद्धि के साथ**  
**स्थिर विकास के लिए**

विकल्प 01 - मूल बीमाधन का 1.25 गुना का दावा भुगतान

विकल्प 02 - मूल बीमाधन का 10 गुना का दावा भुगतान

1. पालिसी अवधि	10, 15 और 18 साल
2. प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	90 दिन (18 साल की अवधि के लिए) 3 वर्ष (15 साल की अवधि के लिए) 8 वर्ष (10 साल की अवधि के लिए)
3. प्रवेश के समय अधिकतम आयु	विकल्प 1 : 60 साल (निकटतम जन्मदिन पर) विकल्प 2 : 40 साल (निकटतम जन्मदिन पर 10 साल की अवधि के लिए) 35 साल (निकटतम जन्मदिन पर 15 साल की अवधि के लिए) 32 साल (निकटतम जन्मदिन पर 18 साल की अवधि के लिए)
4. परिपक्वता पर न्यूनतम आयु	18 साल (पूरे होने पर)
5. परिपक्वता पर अधिकतम आयु	विकल्प 1 : 78 साल (निकटतम जन्मदिन पर) विकल्प 2 : 50 साल (निकटतम जन्मदिन पर)
6. प्रीमियम भुगतान विकल्प	एकमुश्त प्रीमियम
7. न्यूनतम मूल बीमाधन	₹125000 इसके बाद ₹5000 के गुणक में
8. अधिकतम मूल बीमाधन	कोई सीमा नहीं

**गारंटीड एडीशन (₹1000 के मूल बीमाधन पर)**

मूल बीमाधन	पॉलिसी अवधि : विकल्प 1			पॉलिसी अवधि : विकल्प 2		
	10 साल	15 साल	18 साल	10 साल	15 साल	18 साल
राशि 1,25,000 से 2,45,000	60	65	65	25	30	30
राशि 2,50,000 से 6,95,000	65	70	70	30	35	35
राशि 7,00,000 और अधिक पर	70	75	75	35	40	40

**प्रमुख विशेषताएँ व पात्रता की शर्तें**

- पॉलिसी अवधि चुनने का विकल्प (10 वर्ष/15 वर्ष/18 वर्ष)
- विविध लाभ
- बीमा राशि चुनने का विकल्प (तालिकाबद्ध प्रीमियम के 1.25 गुना या 10 गुना)
- दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ व टर्म राईडर सुविधा उपलब्ध।
- 3 माह परचात लोन (ऋण सुविधा) उपलब्ध।
- परिपक्वता दावा एवं मृत्यु दावे को किरतों में भी प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध।

विरस्त जानकारी हेतु आज ही निकटतम शाखा/विकास अधिकारी/मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (CLIA)/अधिकारी से संपर्क करें।


अधिकारता प्रशिक्षण सामग्री

बीमा आपस की विपदवस्तु है।


हमें यहाँ फॉलो करें:  LIC India Forever



## 6. Jeevan Utsav



Non-Linked, Non-Participating,  
Individual Savings, Whole Life Insurance Plan



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

I	Minimum Entry Age	90 days
II	Maximum Entry Age	65 Years ( in Umang it is 55 Years)
III	Maximum Age at the end of PPT	75 Years ( in Umang it is 70 Years)
IV	Premium Paying Terms	5 to 16 Years (Minimum PPT for Umang 15 Years)
V	Deferment Period	PPT 5 Years - 5 Years, PPT 6 Years - 4 Years, PPT 7 Years - 3 Years, PPT 8 to 16 Years- 2 Years

Income Benefit Starts at minimum age of 18 years. (In Umang it is 30 years). Income Benefits payable at the end of the policy year in which it falls due.

Minimum Sum Assured : 5 Lakhs (in Umang it is 2 Lakhs) : However proportionate benefits in Jeevan Utsav are paying as under :

**(a) Under a Paid-up Policy where Paid-up Sum Assured is equal to or greater than Rs. 2,00,000**

Paid up Sum Assured	Regular / Flexi Income Benefit
Rs. 2,00,000 and above but less than Rs. 3,00,000	5% of Paid-up Sum Assured
Rs. 3,00,000 and above but less than Rs. 4,00,000	6% of Paid-up Sum Assured
Rs. 4,00,000 and above but less than Rs. 5,00,000	7% of Paid-up Sum Assured
Rs. 5,00,000 and above	10% of Paid-up Sum Assured

**Guaranteed Additions : Rs. 40 per thousand Basic Sum Assured during the Premium Paying Term.**

**Survival Benefits :**

Option I - Regular Income Benefit - 10% of Basic Sum Assured at the end of each Policy year

Option II Flexi income Benefit - 10% of Basic Sum Assured at the end of each Policy Year, Flexibility to defer and accumulate such Flexi Income Benefit at 5.5% p.a. compounding yearly for completed months from its due date till the date of withdrawal or surrender or death, whichever is earlier.

Policyholder on written request can withdraw once in a policy year, a maximum of 75% of balance accumulated Flexi income Benefits(s) including interest, if any, which has not already been withdrawn and the net amount after withdrawal will continue to accumulate at 5.5% p.a. compounding yearly. Loan up to 50% of Flexi Income benefit due and not withdrawn is available.

**Death Benefit :**

Death Benefit = Sum Assured on Death + Accrued Guaranteed Additions

Where " Sum Assured on Death" is defined as the higher of Basic Sum Assured or 7 Times of Annualized Premium.

**(b) Under a Paid-up- Policy where Paid-up Sum Assured is less than Rs. 2,00,000 :**

On death of the Life Assured, Death Benefit equal to 'Death Paid-up Sum Assured' along with accrued Guaranteed Additions shall be payable to the Nominee/Beneficiary.

Agents Training Material

For Internal Circulation Only



On survival of Life Assured, Regular Income Benefits of Flexi Income Benefits shall not be payable under a Paid-up Policy where Paid-up Sum Assured is less than Rs. 2,00,000.

**Available both offline and Online (Umang is available offline only)**

**Commission :**

Premium Payment Term	1st Year	2nd & 3rd Year	Subsequent Year
5 to 9	10%	5%	5%
10 to 14	20%	7.50%	5%
15 years & above	25%	7.50%	5%

**Bonus Commission : 40% on 1st Year Commission**

**DO Credit : 100% for all Premium Paying Term**

**Rebate for CIS/Online : 10% for all Premium Paying Term**

**POSP-LIC/CPSC channels not allowed.**

**Riders allowed :**

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider

LIC's Accident Benefit Rider

LIC's New Term Assurance Rider

LIC's New Critical illness Benefit Rider

LIC's Premium Waiver Benefit Rider

**Option to take Death Benefit in Instalment :**

This is an option to receive Death Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lump sum amount under an in-force as well as paid-up policy.

**Minimum installment amount for different modes of payments being as under ;**

Mode of Instalment Payment	Minimum Instalment Amount
Monthly	Rs. 5,000/-
Quarterly	Rs. 15,000/-
Half-Yearly	Rs. 25,000/-
Yearly	Rs. 50,000/-

The Sample illustrative yearly premiums for standard lives for Sum Assured of Rs. 5,00,000 for policies to sold through offline are as under;

Premium Paying Term	Age at Entry		
	10 Years	30 Years	50 Years
5	Rs. 1,09,575	Rs. 1,10,150	Rs. 1,18,625
8	Rs. 72,600	Rs. 72,600	Rs. 72,600
12	Rs. 44,250	Rs. 44,275	Rs. 45,225
16	Rs. 29,900	Rs. 30,025	Rs. 33,475

The above premiums are exclusive of taxes.

For other sum assured Premium Rates are attached.

Feel free to contact us with any inquiries or if you've made a decision to acquire insurance. We're here to assist you.